



VIDEHA

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह ११७ म अंक

१. विदेह ११७ म अंक

२. विदेह ११७ म अंक

२.१. विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक

२.२. विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक

२.३. विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक

२.४. विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक

२.५. विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक

२.६. विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक

अंक ३)

२.७. विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक विदेह ११७ म अंक

३. विदेह ११७ म अंक





**VIDEHA**

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

॥

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

↑ बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

॥

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

॥

॥

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

॥





२०१२)]

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



VIDEHA

... २०१३) [ ... ]

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...





**VIDEHA**

बिदेह संस्कृत ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृत ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृत ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृत ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृत ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)











VIDEHA

...संस्कृत... १९२५ ...

...संस्कृत... १९५५ ...

...संस्कृत... १९६२ ...









**VIDEHA**

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) **मैथिली संस्कृतम् ISSN 2229-547X**

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) **मैथिली संस्कृतम् ISSN 2229-547X**

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) **मैथिली संस्कृतम् ISSN 2229-547X**

५

५ ५

५

५

५

५

५





VIDEHA

.....

.....

.....





**VIDEHA**

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

• •

•

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

• •

•

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

• • •

•

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

• •

•

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

• •

•

• •

• •

•

• •

• •



VIDEHA

•

मन्त्रालय, बिहार, नया दिल्ली, भारत, ८०० ००१

• •

•

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

• •

• • •

•

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

• •

•

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

• •



VIDEHA

•

विदेह पत्रिका जू प्रथम संस्करण जू प्रथम अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) म प्रकाशित भेल अछि । एकर सम्पादन संस्था विदेह संस्कृतम् अछि । एकर संपादक कौशिक प्रसाद अछि । एकर प्रकाशक विदेह संस्कृतम् अछि । एकर प्रकाशन स्थल नेपाल अछि । एकर प्रकाशन दिनांक ०१ नवम्बर २०१२ अछि । एकर प्रकाशन स्थल नेपाल अछि । एकर प्रकाशन स्थल नेपाल अछि ।

• •

•

विदेह पत्रिका जू प्रथम संस्करण जू प्रथम अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) म प्रकाशित भेल अछि ।

• •

•

विदेह पत्रिका जू प्रथम संस्करण जू प्रथम अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) म प्रकाशित भेल अछि । एकर सम्पादन संस्था विदेह संस्कृतम् अछि । एकर संपादक कौशिक प्रसाद अछि । एकर प्रकाशक विदेह संस्कृतम् अछि । एकर प्रकाशन स्थल नेपाल अछि । एकर प्रकाशन दिनांक ०१ नवम्बर २०१२ अछि । एकर प्रकाशन स्थल नेपाल अछि । एकर प्रकाशन स्थल नेपाल अछि ।

• •

•

•



**VIDEHA**

::

::

:: ::

::

::

::

:: :: ::

::

:: :: ::

::



**VIDEHA**

::

::

::

::

::

::

:: ::

::

::

::



::

:: :: ::

::

::

::

:: ::

::





**VIDEHA**

—

:: ::

::

::

::

::

::

:: :: ::

::

:: ::

::



**VIDEHA**

:: ::

::

::

::

::

:: ::



**VIDEHA**

::

::

,

::

::

::

:: ::

::



॥

॥ ॥

॥

॥

॥

॥

॥

॥



::

::

::

::

::

:: ::

::



**VIDEHA**

॥

॥

॥ ॥

॥

॥

॥ ॥

॥

,

॥



::

::

::

::

::

::

::



::

:: ::

::

::

::

:: :: ::

::

::

::





::

::

:: ::

::

::

::



::

,

::

::

::

-

::

::

::

::



**VIDEHA**

::

:: ::

::

::

::

::

::



::

::

::

::

::

::



::

:: ::

::

::

::

::

,

::

::



::

:: ::

:: :: ::

::

::

::

::



::

:: :: ::

::

::

::

::

::



**VIDEHA**

• • •

•

• •

•

• • •

•

3

संस्कृत २५ सन् २०१२ (संस्कृत २५ सन् २०१२) (संस्कृत २५ सन् २०१२)

संस्कृत २०१२: (संस्कृत २५ सन् २०१२) (संस्कृत २५ सन् २०१२) (संस्कृत २५ सन् २०१२)

• • •

•







**VIDEHA**

:: \_ ::

:: \_ ::

:: \_ ::

:: ::

::

:: ::

:: ::

:: ::

:: ::

:: ::

:: ::

::



**VIDEHA**

:: ::

:: ::

---

:: ::

:: ::

:: ::

:: ::

:: ::

:: ::

:: ::



**VIDEHA**

" — "

;

" — "

**४**

मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः

;

;

;

• मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः

;

;

;

;

;

;

;

;

;

•

•

•

•

मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः

मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः

मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः

मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः

मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः

मृत्युं विद्मः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः मृतं न जानामः





**VIDEHA**

६

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२

एकदशमः अङ्कः २०११  
दशमः अङ्कः २०१२



**VIDEHA**

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: १५०

संसदीय दस्तावेज संकलन: २००९

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २४

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: ९१

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००९

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००५

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००६

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००७

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००८

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००९

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१०

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०११

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१२

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१३

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१४

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१५

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१०

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००६

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००७

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००८

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २००९

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१०

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०११

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१२

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१३

भारतीय संसदीय दस्तावेज संकलन: २०१४







VIDEHA

२-१ : बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विधेयक, २०१२ का मसौदा

२-२ : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२

२-३ : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२

२-४ : बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विधेयक, २०१२

२-५ : बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विधेयक, २०१२

२-६ : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२  
(अंक ३)

२-७ : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२

बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विधेयक, २०१२

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकिंग विधेयक, २०१२ का मसौदा



**VIDEHA**

पत्रिकाका लागि तयारी गर्ने सबै कुराहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ। पत्रिकाका लागि तयारी गर्ने सबै कुराहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ। पत्रिकाका लागि तयारी गर्ने सबै कुराहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ।

**११९** ... **२५** ...

**१२९** ...

**१४५** ...

**१००** ... **११३** ... **१२९** ...

**१४५** ... **१४५** ... **११४** ...

...

...

... **३०००** ... **५०००** ...

...

...



**VIDEHA**

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

•

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका



**VIDEHA**

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)



**VIDEHA**

प्रथम मैथिली पक्षिक अ पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)





VIDEHA

दशम अंकिका आदि... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...

विदेह संस्कृतम्... विदेह संस्कृतम्...













**VIDEHA**

भारत सरकार की ओर से

प्रकाशित

०१ नवम्बर २०१२

विदेह

विदेह एक ऐसी पत्रिका है जो मैथिली भाषा के विकास के लिए प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है।

विदेह एक ऐसी पत्रिका है जो मैथिली भाषा के विकास के लिए प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है।

विदेह एक ऐसी पत्रिका है जो मैथिली भाषा के विकास के लिए प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है।

विदेह एक ऐसी पत्रिका है जो मैथिली भाषा के विकास के लिए प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका है जो कि प्रकाशित की गई है।



VIDEHA

... ..

... ..





VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका अ पत्रिका विदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका अ पत्रिका विदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका अ पत्रिका विदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका अ पत्रिका विदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका अ पत्रिका विदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका अ पत्रिका विदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका अ पत्रिका विदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)



















**VIDEHA**

५०. प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष एवं संपादक के रूप में कार्य किया।  
 ५१. प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 ५२. प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।  
 प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

**३-१**

**३-१** प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

**३-२** प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

**३-३** प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

**३-४** प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

**३-५** प्रथम प्रकाशक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।









**VIDEHA**

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका





**VIDEHA**

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)



**VIDEHA**

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७

११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७



**VIDEHA**

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....









**VIDEHA**

१.१३ १.१३ १.१३ १.१३ १.१३

२.१ २.१ २.१ २.१ २.१

५.१ ५.१ ५.१ ५.१ ५.१

६.१ ६.१ ६.१ ६.१ ६.१

७.१ ७.१ ७.१ ७.१ ७.१

८.१ ८.१ ८.१ ८.१ ८.१

९.१ ९.१ ९.१ ९.१ ९.१

१०.१ १०.१ १०.१ १०.१ १०.१

११.१ ११.१ ११.१ ११.१ ११.१

१२.१ १२.१ १२.१ १२.१ १२.१

१३.१ १३.१ १३.१ १३.१ १३.१

१४.१ १४.१ १४.१ १४.१ १४.१

१५.१ १५.१ १५.१ १५.१ १५.१

१६.१ १६.१ १६.१ १६.१ १६.१

**१७.१**

१७.१ १७.१ १७.१ १७.१ १७.१

१८.१ १८.१ १८.१ १८.१ १८.१

१९.१ १९.१ १९.१ १९.१ १९.१

२०.१ २०.१ २०.१ २०.१ २०.१

२१.१ २१.१ २१.१ २१.१ २१.१

२२.१ २२.१ २२.१ २२.१ २२.१

२३.१ २३.१ २३.१ २३.१ २३.१



**VIDEHA**

संस्कारिता संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

**संस्कृत**

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत

संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत



**VIDEHA**

**३ अंक**

मन्मथ, लक्ष्मी, कर्कश, सुन्दरी, शशि,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी) २४ २-२४ २-२४ २)

**४ अंक**

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी,

सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी, सुन्दरी



**VIDEHA**

बिदेह विदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

**५५५५**

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
 बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह





**VIDEHA**

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
अंक ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)  
गान्धीनिसंस्कृतम् ISSN 2229-547X

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

**विदेह**

बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका  
अंक ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)  
गान्धीनिसंस्कृतम् ISSN 2229-547X



**VIDEHA**

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

**आँ** विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका



**VIDEHA**

सं. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

१९ नवम्बर २०१२

१

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका





**VIDEHA**

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१ नवम्बर २०१२

**२**

विदेह: प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

अंक ०१









**VIDEHA**

१. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

२. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

३. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

४. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

५. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

६. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

१. ११७ अंक

२. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

३. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

४. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

५. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

६. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

७. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

१. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

२. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

३. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

४. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

५. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

६. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

१. ११७ अंक

२. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

३. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

४. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

५. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२

६. ११७ अंक ०१ नवम्बर २०१२



**VIDEHA**

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

गान्धीमिह संस्कृतम्

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

१ म अंक ०१ नवम्बर २०१२, २ म अंक १५ नवम्बर २०१२, ३ म अंक ३० नवम्बर २०१२, ४ म अंक १५ दिसम्बर २०१२

**१**

बिदेह संस्कृतम्

११७

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह संस्कृतम् ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२



**VIDEHA**

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

**ॐ नमो भगवते वासुदेवाय**

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।  
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

**३**

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।



**VIDEHA**

१००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००  
 १००० १००० १००० १००० १०००





**VIDEHA**

१०३३३ ०००० ०० ०००० ०००  
 ०००००० ००००० ०००० ००  
 ००००० ०००० ००००००००० ००००००  
 ०० ००००००० ०००० ००० ००  
  
 ००००००० ००००० ००००० ०००००  
 ०००० ००० ०००० ०००० ००००००० ००  
 ००००० ०००००० ०००० ००००  
 ००००० ०००००० ००००००० ००  
  
 ००० ००००० ००० ०००००  
 ००००००००००० ००० ००००० ००  
 ०००००००० ०००० ०००००० ०००००००००  
 ०० ०० ००००० ००००००० ००  
  
 ०००००० ००० ०००००० ००००  
 ००००० ०००००० ००० ००००० ००  
 ०००००० ००० ००० ०० ० ० ०००००  
 ००००० ०००० ०००००० ००००० ००  
  
 ०००००० ०००० ०००० ००००००००  
 ०००००० ०००००० ००००० ००  
 ०००००० ००० ००००० ०००  
 ०००० ०००००० ००००० ००  
 ०००० ००० ०००००० ०००००००००  
 ०००० ००० ०००००० ०००००००००००



**VIDEHA**

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

**४**

बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह

बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह



**VIDEHA**

०००० ०० ००० ०००० ००००

०००० ०० ००० ०००० ००००

०००० ००० ००० ०००० ००००

००० ०००० ०००० ००००० ००००

० ००००००० ००० ०००००० ० ०० ०० ०००००

००००० ००००० ००० ०००००० ००० ००००००

००००००० ००००००

०००००००० ००००००० ००००००० ००

०००००००० ०००००००

० ० ० ० ०

००००० ००००००

०००००००० ०००००००० ०००००००० ००

०००००००० ००० ०००००० ००००००० ००

०००००००० ०००००० ०००००००० ००

०००००००० ०००००००० ०००००००० ००० ०००००० ०००००००० ००००००००

० ० ० ० ०

०००००० ०००००० ००० ०००० ०००० ०००००

१ ०००००००० ०००००००० ०००० ०००० ०००००००० ००० ००००००००० ००००००००००

००००००० ०००००० ०००००

०००००००० ००००००० ०००००००००

०००००००० ००००००० ०००००००००

०००००००० ००००००० ००००००



**VIDEHA**

२. नवम्बर २०१२ तः ३० नवम्बर २०१२ तक चलने वाली प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

१. नवम्बर २०१२

३. नवम्बर २०१२ तक चलने वाली प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

४. नवम्बर २०१२ तक चलने वाली प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

५. नवम्बर २०१२ तक चलने वाली प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

६. नवम्बर २०१२ तक चलने वाली प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'विदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)







**VIDEHA**

**३ नवम्बर २०१२**

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

**४ नवम्बर २०१२**

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

**५ नवम्बर २०१२**

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

**६ नवम्बर २०१२**

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

**७ नवम्बर २०१२**

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

**८ नवम्बर २०१२**

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥

कविः शिवशंकरः कवयित्रीः लक्ष्मीदेवीः कालिकादेवी ॥











**VIDEHA**

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

२५७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

२५७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

२५७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

२५७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

३५७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

४५७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)







**VIDEHA**

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

१-२५ बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

१-५ बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

बिदेह प्रथम

२- बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

३- बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)



**VIDEHA**

४५. ... ..

४६. ... ..

४७. ... ..

४८. ... ..

४९. ... ..

५०. ... ..

५१. ... ..

५२. ... ..

५३. ... ..











**VIDEHA**

० १०१००० ०००० ०० ०० ०००००० ००  
०० ०००  
०००००  
००० ००० ००० ००  
०००० ०००००  
००००००  
००००००० ०००००० ०० ०००००० ०० ०००००० ०० ०००००० ०००००० ०००००० ००००००  
००००००  
००० ०००  
०००० ०००० ००० ००० ००  
००००० ०००००  
००  
००० ००००००  
००० ००० ००० ००००० ००००० ००००० ००००० ०००० ०००० ०००० ००००  
००००० ०००००००  
०००००० ०००००  
०० ००  
०००० ००००  
००० ०००  
०००० ००००  
०००००० ०००००  
०००००० ०००००० ०००००० ०००००० ००००००  
००००० ०००००  
००००० ००००० ०० ००००० ००००० ००००० ००००० ००००० ००००० ०००००  
०००० ०००००







**VIDEHA**

११७ म अंक

०१ नवम्बर २०१२

५९

११७ म अंक

११७ म अंक

११७ म अंक

५९

११७ म अंक

११७ म अंक

११७ म अंक

५९

५९

११७ म अंक

११७ म अंक

**२२५** ११७ म अंक

११७ म अंक

११७ म अंक

**११७ म अंक**

**२५** ११७ म अंक

११७ म अंक

**३५** ११७ म अंक

**४५** ११७ म अंक

५९

**५९** ११७ म अंक

११७ म अंक



**VIDEHA**

६ :

१११ १११ १११, १११, १११, १११,

७ १११, १११ १११ १११ १११ १११ १११ १११, १११

११११११

८ १११ १११ १११११ ११११ १११११ ९

११

११११ ११११

१० १११११, ११११११

११ ११११ १११ १

१२ ११११ १११ ११ १११ १११ १११

१३ १११ १११११ १११११११ १११ १११

१४ :

११११११११ ११११११ ११११११११

१५ ११११११ ११११११ १११११ ११११ ११११

१६ ११११ १११ ११११ ११११

१७ ११११

११११

१८ :

११११११ १११११ ११११११

१९ ११, ११ १११११११ १

२०

१ १ ११११११ १, १

२१ १११ १११ ११११११ ११११ ११११







**VIDEHA**

**३८:** अक्षर अक्षर अक्षर

**३९:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४०:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४१:**

अक्षर अक्षर अक्षर

**४२:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४३:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४४:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४५:**

अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४६:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४७:** अक्षर अक्षर अक्षर

अक्षर

**४८:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**४९:**

अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**५०:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**५१:**

अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

**५२:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर

अक्षर

**५३:** अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर



**VIDEHA**

५४: १:११ १:११

५५: १:११:११ १:११:११

५६: १:११:११ १:११:११

५७: १:११:११ १:११:११

१:११:११ १:११:११

५८: १:११ १:११

५९: १:११:११ १:११:११ १:११:११

६०: १:११ १:११ १:११ १:११

६१: १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११

६२: १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११

६३: १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११

६४: १:११ १:११ १:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११

६५: १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११ १:११:११:११

६६: १:११ १:११ १:११

६७: १:११:११:११ १:११:११:११:११

६८: १:११ १:११ १:११:११ १:११

६९: १:११:११ १:११:११ १:११ १:११ १:११

७०:

१:११:११:११ १:११:११:११

७१:

१:११:११:११

७२:



**VIDEHA**

१२३ १२४ १२५ १२६

७३: १२३३३ १२३३३

७४: १२३३३

७५:

१२३३३ १२३३३

७६:

१२३३३

७७: १२३३३ १२३३३

१२३३३ १२३३३

७८: १२३३३ १२३३३

७९:

१२३३३ १२३३३ १२३३३

८०: १२३३३

८१

१२३३३ १२३३३ १२३३३

८२: १२३३३ १२३३३

८३: १२३३३ १२३३३

८४: १२३३३

१२३३३ १२३३३

८५: १२३३३ १२३३३ ८६:

१२३३३

८७: १२३३३ १२३३३ १२३३३ १२३३३ १२३३३ १२३३३

८८: १२३३३



**VIDEHA**

१०१

१०२

१०३

१०४

१०५

१०६

१०७

१०८

१०९

११०

१११

११२

११३

११४

११५

११६

११७

११८

११९

१२०

१२१

१२२



**VIDEHA**

१०५

१०६

१०७

१०८

१०९

११०

१११

११२

११३

११४

११५

११६

११७

११८

११९

१२०

१२१

१२२

१२३

१२४

१२५

१२६



**VIDEHA**

**१२२:** मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

मङ्गलम्

**१२३:** मङ्गलम्

**१२४:**

मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१२५:**

मङ्गलम् मङ्गलम्

**१२६:** मङ्गलम् मङ्गलम्

**१२७:** मङ्गलम् मङ्गलम्

**१२८:** मङ्गलम् मङ्गलम्

**१२९:**

मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३०:** मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३१:**

मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३२:** मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३३:** मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३४:** मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३५:** मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३६:** मङ्गलम् मङ्गलम्

मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

**१३७:** मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्

मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम्





**VIDEHA**

विदेह

१५४: विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

१५५: विदेह

विदेह

१५६: विदेह विदेह

१५७

विदेह विदेह

१५८: विदेह विदेह विदेह, विदेह

१५९: विदेह विदेह

१६०:

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

१६१: विदेह विदेह

१६२:

विदेह विदेह

१६३: विदेह विदेह विदेह

१६४: विदेह विदेह विदेह

१६५: विदेह

१६६: विदेह विदेह विदेह

१६७: विदेह विदेह

१६८:

विदेह

१६९: विदेह विदेह विदेह





**VIDEHA**

१७०: ३३३

१७१:

३३३ ३३३

१७२:

३३३ ३३३

१७३: ३३३ ३३३

१७४: ३३३

१७५: ३३३ ३३३

१७६: ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

१७७: ३३३ ३३३

१७८:

३३३ ३३३

१७९: ३३३

१८०: ३३३ ३३३

१८१:

३३३ ३३३

१८२: ३३३ ३३३ ३३३

१८३:

३३३ ३३३ ३३३

१८४:

३३३ ३३३ ३३३

१८५: ३३३ ३३३ ३३३





**VIDEHA**

२०२: १११-११२ ११३-११४

२०३:

११५-११६ ११७-११८

२०४: ११९-१२० १२१-१२२ १२३-१२४

२०५: १२५-१२६ १२७-१२८

२०६: १२९-१३० १३१-१३२ १३३-१३४

२०७: १३५-१३६ १३७-१३८

१३९-१४० १४१-१४२

२०८: १४३-१४४ १४५-१४६ १४७-१४८

२०९: १४९-१५० १५१-१५२

२१०: १५३-१५४

२११: १५५-१५६

१५७-१५८ १५९-१६० २१२: १६१-१६२ १६३-१६४

२१३: १६५-१६६ १६७-१६८

२१४: १६९-१७० १७१-१७२

२१५: १७३-१७४

२१६: १७५-१७६

१७७-१७८

२१७: १७९-१८० १८१-१८२

२१८: १८३-१८४ १८५-१८६ १८७-१८८ १८९-१९०

२१९: १९१-१९२ १९३-१९४

२२०



**VIDEHA**

संस्कृत-मैथिली-संस्कृत

२२१ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२२ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२३ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२४ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२५ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२६ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२७ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२८ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२२९ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३० संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३१ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३२ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३३ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३४ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३५ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३६ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३७ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३८ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

२३९ संस्कृत-मैथिली-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत



**VIDEHA**

२४०-संस्कृतः

२४१-संस्कृतः

२४२-संस्कृतः

२४३-संस्कृतः

२४४-संस्कृतः

२४५

संस्कृतः

२४६-संस्कृतः

२४७-संस्कृतः

संस्कृतः

२४८-संस्कृतः

२४९-संस्कृतः

२५०-संस्कृतः

२५१-संस्कृतः

२५२-संस्कृतः

२५३-संस्कृतः

२५४-संस्कृतः

२५५-संस्कृतः

२५६-संस्कृतः

संस्कृतः

२५७-संस्कृतः

२५८-संस्कृतः







**VIDEHA**

२९६-  
२९७-  
२९८-  
२९९-  
३००-  
३०१-  
३०२-  
३०२-  
३०३-  
३०४-  
३०५-  
३०६-  
३०७-  
३०८-  
३०९-  
३१०-  
३११-  
३१२-  
३१३-













**VIDEHA**

१. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

२. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

३. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

४. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

५. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

६. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

७. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

८. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

९. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

१०. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

११. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

१२. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)

१३. बिदेह ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)



**VIDEHA**

१२: एतन्मन्त्रं तन्मन्त्रं एतन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

१३: एतन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

१४:

“ “

१५: एतन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

१६: एतन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं **ॐ** तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

१७: एतन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

१८: एतन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं  
तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

१९: तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

२०: तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “

२१: “ “

२२: “ “

२३: तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं तन्मन्त्रं

“ “



**VIDEHA**

२४ \* \* \* \* \*

" "

२५ \* \* \* \* \*

" "

२६ \*

२७ \*

"

२८ \* \* \* \* \*

" "

२९ \* \* \* \* \*

" "

३० \* \* \* \* \*

" "

३१ \* \* \* \* \*

" "

३२ \* \* \* \* \*

" "

३३ \* \* \* \* \*

" "

३४ \* \* \* \* \*

" "

३५ \* \* \* \* \*

" "

३६ \* \* \* \* \*

" "







VIDEHA

“ “ “

“ “

“ “

“ “

बिदेह विदेह १: २: ३: ४ बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह विदेह  
बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
बिदेह विदेह

बिदेह विदेह १: २: ३: ४

बिदेह विदेह बिदेह विदेह

“ “

“

“

२० बिदेह

बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह विदेह  
बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह  
बिदेह विदेह बिदेह विदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह बिदेह



**VIDEHA**

- १. ...
- २. ...
- ३. ...
- ४. ...
- ५. ...
- ६. ...
- ७. ...
- ८. ...
- ९. ...
- १०. ...









**४१** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४२** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४३** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४४** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४५** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४६** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४७** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४८** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**४९** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**५०** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**५१** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X

**५२** नवम्बर २०१२ तमिका ११७ तमिका ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७) गान्धीमिह संस्कृतम् ISSN 2229-547X









**VIDEHA**

बिदेह पत्रिका, ११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)।  
पत्रिका के सम्पादन, प्रकाशन, वितरण, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग  
११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह पत्रिका, ११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)।  
पत्रिका के सम्पादन, प्रकाशन, वितरण, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग  
११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह पत्रिका, ११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)।  
पत्रिका के सम्पादन, प्रकाशन, वितरण, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग  
११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह पत्रिका, ११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)।  
पत्रिका के सम्पादन, प्रकाशन, वितरण, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग  
११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह

बिदेह पत्रिका, ११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२

**२००४-१२**

बिदेह पत्रिका, ११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)।  
पत्रिका के सम्पादन, प्रकाशन, वितरण, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग  
११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२

बिदेह पत्रिका, ११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)।  
पत्रिका के सम्पादन, प्रकाशन, वितरण, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग  
११७ म अंक, ०१ नवम्बर २०१२



**VIDEHA**

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह' ११७ म अंक ०१ नवम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५९ अंक ११७)। मानवीय संस्कृतम् ISSN 2229-547X।

बिदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका